

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203] दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 22, 2018/ आश्विन 30, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 638
No. 203] DELHI, MONDAY, OCTOBER 22, 2018/ ASVINA 30, 1940 [N.C.T.D. No. 638

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2018

सं.फा. 6(79)/एसबी/डीटीटीई/2015/आरआर/2203.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं० जी.एस.आर. 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत डिग्री स्तरीय महाविद्यालयों में कार्यभाला अनुदेभाक के पद पर भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं:

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :— (1) इन नियम को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत डिग्री स्तरीय महाविद्यालयों में कार्यभाला अनुदेभाक के पद हेतु (भर्ती एवं पदोन्नति) 2018 कहा जाये।
(2) ये भासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर के साथ संबद्ध इन नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं** :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता** :— कोई भी व्यक्ति
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,
वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू पर्सनल लॉ के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

- छूट प्रदान करने की शक्ति** :— जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से तथा सरकार के पूर्व अनुमोदन से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियम के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव :-** इस नियम में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	कार्यशाला अनुदेश
2.	पदों की संख्या	:	09 (नौ) (2018)* (जीबीपीईसी,सीबीपीजीईसी एवं एआईएसीटी एवं आर प्रत्येक में तीन पद) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित/ अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर-5 (29200-92300/-रुपए) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-27 वर्ष नोट 1: भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/ अदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय । नोट 2: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, (न कि, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख है।)
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य :- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से तीन वर्षीय डिप्लोमा या प्रासंगिक/संबद्ध विषय में समकक्ष, अथवा किसी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में वांछित विषय/क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव सहित सुसंगत या संबद्ध विषय/क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान/राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र सहित 10 कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 20 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति द्वारा तेरह वर्षों की नियमित सेवा सहित सातवें वेतन आयोग के अनुसार स्तर-2 (19900-63200/-रुपये) में कार्यशाला सहायक
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	विभागीय पदोन्नति समिति (परिवीक्षा/पदोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. प्रधान सचिव/सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय- अध्यक्ष

		2. विभागाध्यक्ष, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय-सदस्य 3. विशेष/अपर निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय- सदस्य
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
देविन्दर सिंह, सचिव (टी.टी.ई.)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2018

No.F.6(79)/SB/DTTE/2015/RR/2203.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. G.S.R.840 dated 13th July 1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of “Workshop Instructor” in Degree Level Colleges under the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

- Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the “Workshop Instructor” in Degree Level Colleges under Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi (Recruitment and Promotion) Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:-** The number of posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in Column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.
- Method of Recruitment, Age limit and other qualification:-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Column No. (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualifications:** No person
(a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living or
(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;
shall be eligible for appointment to any of the said post.

Provided that Department of Training and Technical Education may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

- Power to relax:-** Whether the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reason to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.
- Saving:-** Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Workshop Instructor	09 (Nine) 2018* (Three posts each in G.B. Pant Engineering College, Ch. Brahm Prakash	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs. 29200-92300) as per 7 th CPC	Non- Selection.	Between 18-27 Years. Note 1: Relaxable for Government Servants as per instructions/ order

	Government Engineering College and Ambedkar Institute of Advanced Communication Technologies & Research) *Subject to variation, depending on workload.				issued by the Government of India from time to time. Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti Distt. And Pangi Sub-Division of Chamba Distt. Of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands & Lakshdweep).
--	---	--	--	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 03 (Three) years Diploma from a recognized Institute / Board / University in the relevant or an allied subject/field or equivalent. OR Class 10 th passed with Industrial Training Institute/ National Trade Certificate/ National Apprenticeship	Not Applicable	Two Years	80% by Direct Recruitment. 20% by Promotion

Certificate or equivalent from a recognized Institute/Board/ University in the relevant or an allied subject/field with Three years experience in Government / Public Sector Undertaking.			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion/deputation/Absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By Promotion: Workshop Assistant in Level-2 (Rs. 19900-63200) as per 7 th CPC with Thirteen years of regular Service.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation/promotion): 1. Principal Secretary/Secretary, Directorate of Training and Technical Education -Chairperson 2. Head of Department, Directorate of Training and Technical Education – Member 3. Special/Additional Director, Directorate of Training and Technical Education -Member	Not Applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi.
DEVINDER SINGH, Secy. (TTE)